

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16 नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 18—अप्रैल 24, 2015 (चैत्र 28, 1937)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 18—APRIL 24, 2015 (CHAITRA 28, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल 2015

रक्षा (एम एस)

सं. 83, दिनांक 26 मार्च 2015—भारत के माननीय राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 अक्टूबर 2014 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

अवैतनिक थल सेना ए डी सी

आई सी-31324 एम ले. जन. के. सुरेन्द्रनाथ अ.वि.से.मे**, सेमे. वि.से.मे., कवचित कोर

आई सी-30462 एफ ले.जन. ए. एस छब्बेवाल, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., यु.से.मे., कवचित कोर

(सेवानिवृत्त) के स्थान पर

आई सी-30408के ले.जन. वी.के. नरूला, अ.वि.से.मे., से.मे., तोपखाना रेजिमेंट

आई सी-30392एन ले.जन. आर.पी. दस्ताने, अ.वि.से.मे., वि.से.मे., तोपखाना रेजिमेंट

(सेवानिवृत्त) के स्थान पर

भारत के माननीय राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 नवम्बर 2014 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

अवैतनिक (वायु) ए.डी.सी.

एयर मार्शल एस. एस. सोमन, अ.वि.से.मे., वा.मे. (14681) एफ (पी)

रेवती रमन

अवर सचिव

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 84, दिनांक 27 मार्च 2015—राष्ट्रपति स.से.मु. सिविल सेवा के अन्तर्गत निम्न सहायक (समूह ब, अराजपत्रित) को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से वेतन बैंड-2 में (रु.4800/- ग्रेड वेतन सहित रु.9300-34800) अनुभाग अधिकारी (समूह ब, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

संख्या	नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति की तारीख
1	श्री डी.एस. शौकिन	01 फरवरी 1962	26 मई 2001
2	श्री उमेदी लाल मीणा	03 मई 1966	26 मई 2001
3	श्री राम स्वरूप (सेवानिवृत्त)	25 अगस्त 1952	26 मई 2001
4	श्री आजद सिंह बोधवाल (सेवानिवृत्त)	05 मार्च 1948	01 अप्रैल 2002
5	श्री एस.के. जैन	11 दिसम्बर 1963	01 अप्रैल 2002
6	श्री सतबीर सिंह सिंहल (सेवानिवृत्त)	10 जून 1951	01 अप्रैल 2002
7	श्री खुशहाल चन्द्रा	17 जनवरी 1966	01 अप्रैल 2007
8	श्रीमति बेबी रानी	21 अक्टूबर 1967	01 अप्रैल 2007
9	श्रीमति राधिका वैकटारामाण	30 अप्रैल 1967	01 अप्रैल 2007
10	श्री महेश कुमार	17 नवम्बर 1967	01 अप्रैल 2004
11	श्रीमति सुशीला देवी (सेवानिवृत्त)	10 मार्च 1954	01 अप्रैल 2004
12	श्रीमति निर्मल बिर्दी	06 अप्रैल 1955	01 अप्रैल 2005
13	श्री बी.एल. चटवाल (सेवानिवृत्त)	19 अगस्त 1947	01 अप्रैल 2007
14	कु. गुर्नाम (सेवानिवृत्त)	02 जुलाई 1948	01 अप्रैल 2007

15	श्री शीशिर कुमार सिंह	30 दिसम्बर 1969	01 अप्रैल 2007
16	श्रीमति दलजीत कौर	15 जुलाई 1968	01 अप्रैल 2007
17	श्री विनोद सरूप शर्मा (सेवानिवृत्त)	05 नवम्बर 1948	01 अप्रैल 2007
18	श्री गुरबचन लाल बत्रा (सेवानिवृत्त)	03 नवम्बर 1948	01 अप्रैल 2007
19	श्री आनंद वर्धन गौर (सेवानिवृत्त)	28 जुलाई 1950	01 अप्रैल 2007
20	श्री राजबीर सिंह	14 अगस्त 1955	01 अप्रैल 2007
21	श्री गब्बर सिंह रावत (सेवानिवृत्त)	10 सितम्बर 1949	01 अप्रैल 2007
22	श्री रीजोयसन रखांगमी	05 फरवरी 1969	01 अप्रैल 2007
23	श्री एम.एल. मखीजा (सेवानिवृत्त)	16 जुलाई 1949	01 अप्रैल 2007
24	श्री आर.के. गौष (सेवानिवृत्त)	08 मई 1950	01 अप्रैल 2008
25	श्रीमति त्रिलोचन कौर	06 अगस्त 1960	01 अप्रैल 2009
26	श्रीमति जसबीर कौर भसीन (सेवानिवृत्त)	22 सितम्बर 1950	01 अप्रैल 2009
27	श्रीमति बीना रानी	10 मार्च 1956	01 अप्रैल 2008
28	श्री अशोक कुमार सिन्हा	13 जनवरी 1970	01 अप्रैल 2009
29	श्री अरुण कुमार मेहतो	09 अगस्त 1971	01 अप्रैल 2009
30	श्री उमेद सिंह (सेवानिवृत्त)	31 मार्च 1952	01 अप्रैल 2011
31	श्रीमति रवि कान्ता शर्मा (सेवानिवृत्त)	12 मार्च 1952	01 अप्रैल 2011
32	श्री डी. चौधरी (सेवानिवृत्त)	28 मई 1951	01 अप्रैल 2010

सर्वजीत सिंह
उप-मु.प्र.अ.(प्रशा.)

राष्ट्रीय कैडेट कोर / एम एस (डी)

सं. 85, दिनांक 30 मार्च 2015—नीचे दिए गए कुलपतियों को राष्ट्रीय कैडेट कोर में अवैतनिक कर्नल का रैंक दिया जाता है और उन्हें उनके संबंधित विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि तक के लिए कर्नल कमांडेन्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है :—

क्र० स०	कुलपति का नाम	निदेशालय का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	कुलपति पद पर नियुक्ति की तारीख
1	डॉ० आर एल गोडारा कुलपति	गुजरात	हेमचन्द्राचार्य नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन	16.09.2013
2	प्रो० अरुण कुमार ग्रोवर कुलपति	पी एच एच पी एवं सी	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	23.07.2013
3	डॉ० एस के पाटिल कुलपति	एम पी एवं सी जी	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	02.11.2011

क्र० स०	कुलपति का नाम	निदेशालय का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	कुलपति पद पर नियुक्ति की तारीख
4	डॉ० उमेश कुमार मिश्रा कुलपति	एम पी एंव सी जी	छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग	22.05.2012
5	प्रो० मनोरंजन कर कुलपति	ओडिशा	ओडिशा कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	17.03.2013
6	प्रो० (श्रीमति) चन्द्रा कृष्णामूर्ति कुलपति	टी एन पी एंव ए एन	पाँडीचेरी विश्वविद्यालय, पुडूचेरी	01.02.2013

डी एम गुप्ता
ब्रिगेडियर
उप महानिदेशक (एम एस)

वायु शाखा

सं. 86, दिनांक 31 मार्च 2015—राष्ट्रपति वा से आ 59/98 के प्रावधानों के अंतर्गत 129 जी डी ओ सी के निम्नलिखित अफसर को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

पूर्व फ्लाइट-कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक पर

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग अफसर मनप्रीत सिंह (32157) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

राष्ट्रपति वा से आ 59/98 के प्रावधानों के अन्तर्गत 114 एन ए वी (189 पायलट कोर्स) के निम्नलिखित सात अफसरों को दिनांक 30 जून 12 से भारतीय वायु सेना की उड़ान (नेवीगेटर) शाखा में स्थायी कमीशन (परिवीक्षा पर) और ब्रेवेट प्रदान करते हैं। ये अफसर स्थायी कमीशन (परिवीक्षा पर) और ब्रेवेट प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 30 जून 12 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

भारतीय वायु सेना

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर वेद प्रकाश प्रजापत (32396), रोहित गुप्ता (32407), उदित कुमार जादोन (32425), प्रवीन कुमार विनोद राय (32429), संदीप कुमार (32446), मनीष दहिया (32451), भूपेन्द्र रांगी (32462), 30 जून 12 से प्रभावी।

राष्ट्रपति वा से आ 59/98 के प्रावधानों के तहत 189 पायलट कोर्स के निम्नलिखित अफसरों को दिनांक 30 जून 12 से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परिवीक्षा पर) और विंग्स प्रदान करते हैं। ये अफसर स्थायी कमीशन (परिवीक्षा पर) और विंग्स प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 30 जून 12 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर नवीन लाठर (32392), केशव यादव (32394), अमन गुप्ता (32397), सौरभ सेठी (32399), अमित कुमार चौहान (32400), शशिभूषण गजेन्द्र राय (32401), विक्रम मलिक (32402), अंकित श्रीवास्तव (32404), नागेन्द्र रेड्डी पुतलूरी (32405), अतुल मिश्रा (32409), प्रशांत कटियार (32411), नितिन सिंघल (32413), अभय सिंह भदौरिया (32414), शुभम गौतम (32415), आशीष हुड्डा (32418), अखिल भास्करन गिरिजा नायर (32419), संग्राम सिंह महादेव पाटिल (32421), बिरेन्द्र कुमार महतो (32422), विकास सिंह चौहान (32424), कन्हैया कौशिक (32426), संदीप रक्षित (32427), विरल चौधरी (32428), विवेक यादव (32431), सुशांत धीमान (32432), दीपक शर्मा (32436), तेजस भगवान शिंदे (32437), विष्णु विठोबा शिरसत (32438), अनिकेत अरुण पाटिल (32439), अनुभव सचदेव (32440), प्रमोद कुमार सिंह (32441), गजेन्द्र प्रताप (32442), विकास पाठक (32443), पीयूष के आर राय (32445), पीयूष कुमार सिंह (32448), अमित सिंह नरवाल (32449), अनुज वर्मा (32450), मनीष मोहन्ता (32452), विनित् कुमार (32453), करण सलूजा (32454), सुमित मिलिन्द कानाडे (32455), यश राज (32457), सौरभ जसवाल (32458), प्रवल शारदा (32459), 30 जून 12 से प्रभावी।

राष्ट्रपति वा से आ 59/98 के प्रावधानों के तहत 130 जी डी ओ सी के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के आगे लिखी तारीख से स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना
फ्लाइट कैडेट से फ्लाइटिंग अफसर के रैंक में
प्रशासनिक शाखा

फ्लाइटिंग अफसर करन सिंह (32463), श्रेयांश उपाध्याय (32464), अम्बिका प्रताप सिंह (32465), संतोष कुमार येन्नति (32466), अविनाश कुमार तिवारी (32467), मुकेश माइकल (32468), बिजेन्द्र (32469), राजेश कुमार (32470), सुनील (32471), अश्विनी दूबे (32472), विक्टर आन्थेम (32473), अरविनो जोसेफ न्यूमैन (32474), अभिषेक पाण्डे (32475), प्रेम रंजन तिवारी (32476), गौरव सिंह (32477), कोटेश्वर राव सिस्तू (32478), जोगिंदर पाल सिंह (32479) 30 जून 12 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्लाइटिंग अफसर निशांत बंसल (32480), शिव कुमार शर्मा (32481), प्रशांत कुमार (32482), अभिनव महाजन (32483), सी एम श्रीजीत (32484) 30 जून 12 से प्रभावी।

लेखा शाखा

फ्लाइटिंग अफसर संजय कुमार कंदपाल (32485), राहुल टी (32486), धीरज राकेश राजपूत (32487) 30 जून 12 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्लाइटिंग अफसर वेंकटेश प्रभु एस (32488) 30 जून 12 से प्रभावी।

मौसम विज्ञान शाखा

फ्लाइटिंग अफसर भावाज्योति धर (32489) 30 जून 12 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, वा से अनु 20/76 के प्रावधानों के तहत 81 ए ई सी के निम्नलिखित फ्लाइट कैडेटों (पूर्व-वायुकर्मी) को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाइटिंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परीविक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना
वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स) शाखा

फ्लाइटिंग अफसर राजेश कुमार मोहापात्रा (33123) 8 जुलाई 13 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 के प्रावधानों के अंतर्गत 81 ए ई सी के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाइटिंग अफसर के रैंक में अल्प सेवा कमीशन (परीविक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना
वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स) शाखा

फ्लाइटिंग अफसर चिंटु कृष्णन विजयाराघवन (32609), अभिनव शर्मा (32610), सुमन मजुमदार (32611), रोहित प्रभुनाथ प्रसाद (32612), रवि कुमार (32613), प्रुध्वी राज सीपाना (32614), प्रणव शर्मा (32615) 09 जुलाई 2012 से प्रभावी।

फ्लाइटिंग अफसर स्मृति संतक मोहंती (32725), सिद्धार्थ कुमार पांडा (32726) 16 जुलाई 2012 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. वा से आ /22258/1/पी ओ 3(ए)/1611/डी ओ आई ए/डी (वायु-III) दिनांक 19 अक्टूबर 82 के प्रावधानों के तहत 81 ए ई सी (यू ई एस-2012) के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से उनको फ्लाइटिंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना
वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाइटिंग अफसर आदित्य कुमार (32603), संजय कुमार शेरैन (32604), गुरुवायुरप्पण ए आर (32605), सुकानुश एस (32606), प्रणव रंजीत (32607), सलिल शर्मा (32608), 09 जुलाई 2012 से प्रभावी।

वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स) शाखा

फ्लाइटिंग अफसर संदीप सैनी (32616), शिखर कुमार मेहता (32617), अनुरूप सिंह (32620), अंकित सैनी (32621), रितेश वाली (32622), राहुल तिवारी (32623), केविन टी सेबेस्टियन (32624), वलीवेती श्रीनिवास वी चैतन्य (32625), अनीश महिंदु (32626), सूरज मादवनचलिल पैकी (32627), अंकित चन्द्र (32628), अंकित अग्रवाल (32629), अभिषेक झा (32630), सोमेश्वर शुक्ला (32631), अभिनव सेठ (32632), अकशत सिंह बोरा (32633), आशुतोष गंगवाल (32637), आशु कुमार पांडे (32638), सौरभ कुमार शर्मा (32639), अभिनव चौहान (32640), अर्णव कुमार पांडे (32641), अविरल सक्सेना (32643), विजित साहु (32644), हेमंत कुमार (32645), तुषार बिष्ट (32647), नितिन राय (32648), मौहम्मद आकिब (32650), मनिक जैन (32651), श्रीनिवासन सुन्दर राजन (32652), अभिनव रस्तोगी (32653), नरेश शर्मा (32654), 9 जुलाई 12 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/बी एम- IV तारीख 14 जून 07 के प्रावधानों के अंतर्गत, भारतीय वायु सेना की उड़ान (नेवीगेटर) शाखा में 113 नेव (06 एस एस सी (एम) पायलट कोर्स) के निम्नलिखित अफसर को 29 दिसम्बर 2011 से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन (पी एस एस सी) एवं ब्रेवेट प्रदान करते हैं। ये अफसर, अस्थायी अल्प सेवा कमीशन एवं ब्रेवेट प्रदान करने की तारीख अर्थात् 29 दिसम्बर 2011 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

भारतीय वायुसेना

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

पूर्व फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर समुंदर सिंह सोढा (32178) 29 दिसम्बर 2011 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/बी एम- IV तारीख 14 जून 07 के प्रावधानों के अंतर्गत, भारतीय वायु सेना की उड़ान (पायलट) शाखा में 06 एस एस सी (एम) पी सी, के निम्नलिखित अफसर को 29 दिसम्बर 11 से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन (पी एस एस सी) एवं विंग प्रदान करते हैं। ये अफसर, अस्थायी अल्प सेवा कमीशन एवं विंग प्रदान करने की तारीख अर्थात् 29 दिसम्बर 11 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

भारतीय वायुसेना

उड़ान (पायलट) शाखा

पूर्व फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर सुरेन्द्र सिंह राजपूत (32182), 29 दिसम्बर 2011 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-1/184/डी एस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के आगे लिखी तारीख से अस्थायी अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर निधि सिंह (32565), शिंगिका वरमनी (32566), आस्था तिवारी (32567), शिखा पाण्डे (32568), दविन्दर कौर (32569), टॉम्सी पी टॉम (32570), सीमा सांगवान (32571), अनु राणा (32572), सुरभि भेसानिया (32573), दीक्षा अग्रवाल (32574), शिवानी रूप (32575), पारूल तिवारी (32576), मोनिका वशिष्ठ (32577), अनुप्रिया (32578), मेलदा साज (32579) 30 जून 12 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर विभा सिंह (32580), वंदना दहिया (32581), अदिति जैन (32582), श्रीलेखा नाथ (32583), अंकिता विश्‍नोई (32584), आकांक्षा बाली (32585), मेनका कुमारी (32586), विनीता प्रकाश (32587), स्वाति बिष्ट (32588), अनिदिती शर्मा (32589) 30 जून 12 से प्रभावी।

लेखा शाखा

फ्लाईंग अफसर श्रुति नायक (32590), गीता पाल (32591), आराधना कश्यप (32592), अलकनंदा गोपीनाथ (32593), अंजनी कुमारी मिश्रा (32594), अनीता पाण्डे (32595) 30 जून 12 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग अफसर हिना मलिक (32596), शुभाश्री देब (32597), कामिनी सिंह (32598), मधुमिता दत्ता (32599), अदिति शर्मा (32600), शिखा पटानिया (32601), टिंजु थॉमस (32602) 30 जून 12 से प्रभावी।

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल 01 के पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-1/184/डी एस/डी (एयर-III) के प्रावधानों के अंतर्गत 36 एस एस सी (डब्ल्यू) पायलट कोर्स के निम्नलिखित पांच अफसरों को दिनांक 30 जून 12 से भारतीय वायु सेना की उड़ान (पायलट) शाखा में फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्पकालिक कमीशन (पी एस एस सी) और ब्रेवेट प्रदान करते हैं। ये अफसर अस्थायी अल्पकालिक कमीशन और ब्रेवेट प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 30 जून 12 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर रुमी रूकमणि शर्मा (32558), लक्षता पराशर (32560), संजना सिंह (32561), श्रुति सिंह (32562), ओलेटी कृष्णय्या निमिषा किशोर (32563), 30 जून 12 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी(ओ)/पी सी-1/184/डी एस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के प्रावधानों के तहत 23 एस एस सी (एम) जी डी ओ सी के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के आगे लिखी तारीख से अस्थायी अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना
फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में
प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर थॉमस इवान (32530), दीपक कुमार वर्मा (32531), जय नारायण शुक्ला (32532), धन सिंह (32533), सुरेंद्र सिंह (32534), रोहित जोशी (32535), सुरेंद्र कुमार (32536), लालरिछाना जोटे (32537), सूरज प्रधान (32538), अरविंद कुमार दीक्षित (32539), राहुल विकास दत्ती (32540), अमरेश कुमार सिंह (32541), शिवराज सुभाष चवन (32542), उमाकांत सिंह (32543), केलविन ए जेभा (32544), दिवाकर तोमर (32545), आशीष सिंह चौहान (32546) 30 जून 12 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर गौरव दूबे (32547), सोनू यादव (32548), आकाश दारा (32549), अवतार सिंह (32550), निशीकांत सरखेल (32551), जय त्यागी (32552), अजीत कुमार आनंद (32553), सिद्धार्थ दत्ता (32554), मीनम सिंह शांतिकुमार (32555), अभिषेक शर्मा (32556), प्रणव नागर (32557) 30 जून 12 से प्रभावी।

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 14 जून 07 के पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/बी एम-IV के प्रावधानों के अंतर्गत 114 एन ए वी (07 एस एस सी (एम) पायलट कोर्स) के निम्नलिखित दस अफसरों को दिनांक 30 जून 12 से भारतीय वायु सेना की उड़ान (नेवीगेटर) शाखा में फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्पकालिक कमीशन (पी एस एस सी) और ब्रेवेट प्रदान करते हैं। ये अफसर अस्थायी अल्पकालिक कमीशन और ब्रेवेट प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 30 जून 12 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

भारतीय वायु सेना
उड़ान (नेवीगेटर) शाखा
फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर अर्पित टंडन (32498), मोहम्मद रिजवान (32499), एम आनंद (32510), अभय शर्मा (32513), अभिषेक सिंह (32515), संजीव यादव (32518), जे बाला कृष्णन (32519), सौरभ शेखावत (32525), अंकित हरी सोनी (32528), वैभव (32529), 30 जून 12 से प्रभावी।

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 14 जून 07 के पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/बी एम-IV के प्रावधानों के अंतर्गत 114 एन ए वी (36 एस एस सी (डब्ल्यू) पायलट कोर्स) के निम्नलिखित दो अफसरों को दिनांक 30 जून 12 से भारतीय वायु सेना की उड़ान (नेवीगेटर) शाखा में फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्पकालिक कमीशन (पी एस एस सी) और ब्रेवेट प्रदान करते हैं। ये अफसर अस्थायी अल्पकालिक कमीशन (परिवीक्षा पर) और ब्रेवेट प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 30 जून 12 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

भारतीय वायु सेना
उड़ान (नेवीगेटर) शाखा
फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर अनुशा पडाला (32559), नेहमत वराईच (32564), 30 जून 12 से प्रभावी

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 14 जून 07 के पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/बी एम-IV के प्रावधानों के अंतर्गत 07 एस एस सी (एम) पायलट कोर्स के निम्नलिखित छब्बीस अफसरों को दिनांक 30 जून 12 से भारतीय वायु सेना की उड़ान (पायलट) शाखा में फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्पकालिक कमीशन (पी एस एस सी) और विंग्स प्रदान करते हैं। ये अफसर अस्थायी अल्पकालिक कमीशन और विंग्स प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 30 जून 12 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

भारतीय वायु सेना
उड़ान (पायलट) शाखा
फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर दीपक खीरिया (32494), गुरप्रीत सिंह रिस्सम (32495), निपुण सैनी (32496), विवेक गैरोला (32497), शशांक (32500), निखिल किशोर (32501), मुकेश के (32502), भारत कौशिक (32503), अजीन जकारिया (32504), दीपान्धु दीक्षित (32505), नरेन्द्र सिंह (32506), अरुण बी (32507), विकास (32508), एम प्रवीण कुमार (32509), आदित्य वर्मा (32511), अमनदीप सिंह दिहोट (32512), वैभव शर्मा (32514), जीजो जॉन (32516), तरुण कुमार गुप्ता (32517), रविन्द्र सिंह बंसल (32520), विष्णु गोपीनाथ (32521), आदित्य खत्री (32522), गौरव शर्मा (32523), दलवीर सिंह भंगू (32524), देवेन्द्र यादव (32526), अमित मलिक (32527), 30 जून 12 से प्रभावी।

डी शर्मा
विगं कमांडर
संयुक्त निदेशक
कार्मिक अफसर -3(डी)

वायु शाखा

सं. 87, दिनांक 01 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 तथा शुद्धिपत्र 10/84 द्वारा वा से अनु 2/73 के प्रावधानों के अंतर्गत 81 ए ई सी के निम्नलिखित अफसरों की अल्प सेवा कमीशन (परीवीक्षाधीन) समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के सामने दी गई तारीख से उनको फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परीवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना
वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स) शाखा

फ्लाईंग अफसर चिंटू कृष्णन विजयाराघवन (32609), अभिनव शर्मा (32610), सुमन मजुमदार (32611), रोहित प्रभुनाथ प्रसाद (32612), रवि कुमार (32613), प्रुध्वी राज सीपाना (32614), प्रणव शर्मा (32615), स्मृति संतक मोहंती (32725), 8 जुलाई 2013 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. वा से आ /22258/1/पी ओ 3(ए)/1611/डी ओ आई ए/डी (वायु-III) दिनांक 19 अक्टूबर 82 के प्रावधानों के तहत 81 ए ई सी (यू ई एस-2012) के निम्नलिखित अफसरों का अस्थायी अल्प सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के सामने दी गई तारीख से उनको फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परीवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना
वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाईंग अफसर आदित्य कुमार (32603), संजय कुमार शेरैन (32604), गुरुवायुरप्पण ए आर (32605), सुकानुश एस (32606), प्रणव रंजीत (32607), सलिल शर्मा (32608), 08 जुलाई 2013 से प्रभावी।

वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स) शाखा

फ्लाईंग अफसर संदीप सैनी (32616), शिखर कुमार मेहता (32617), अनुरूप सिंह (32620), अंकित सैनी (32621), रितेश वाली (32622), राहुल तिवारी (32623), केविन टी सेबेस्टियन (32624), वलीवेती श्रीनिवास वी चैतन्य (32625), अनीश महिंद्र (32626), सूरज मादवन चलिल पैकी (32627), अंकित चन्द्र (32628), अंकित अग्रवाल (32629), अभिषेक झा (32630), सोमेश्वर शुक्ला (32631), अभिनव सेठ (32632), अकशत सिंह बोरा (32633), आशुतोष गंगवाल (32637), आशु कुमार पांडे (32638), सौरभ कुमार शर्मा (32639), अभिनव चौहान (32640), अर्णव कुमार पांडे (32641), अविरल सक्सेना (32643), विजित साहु (32644), हेमंत कुमार (32645), तुषार बिष्ट (32647), नितिन राय (32648), मौहम्मद आकिब (32650), मनिक जैन (32651), श्रीनिवासन सुन्दरराजन (32652), अभिनव रस्तोगी (32653), नरेश शर्मा (32654), 8 जुलाई 13 से प्रभावी।

डी शर्मा
विंग कमांडर
संयुक्त निदेशक
कार्मिक अफसर -3(डी)

वायु सेना

सं. 88, दिनांक 06 अप्रैल 2015—माननीय राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

भारतीय वायु सेना
विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टी एस) के मूल रैंक पर
ए ई (एम) शाखा

वाई राजा राव (15841), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

डी शर्मा
विंग कमांडर
संयुक्त निदेशक
कार्मिक अफसर -3(डी)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 89, दिनांक 07 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को वर्तमान ग्रेड से उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख (पूर्वाह्न) से अगले ग्रेड में सहर्ष पदोन्नत करते हैं:-

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
एन एस नागरथना	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—सी	तकनीकी अधिकारी—डी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—7600 /—	01.09.2014
वी वी आचार्य	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—सी	तकनीकी अधिकारी—डी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—7600 /—	01.09.2014
ए अमलनाथन	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
सी वेलवन (अनु०जा०)	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
के सदाशिवाचर	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
के सत्यानारायण	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
ए जयचन्द्र (अनु०जा०)	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
जी पदमनाभन	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
आर रमेश नायक (अनु०ज०जा०)	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
सुनील पी	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
सुन्दर राजन के	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
जगदीश कुमार टी एस	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014

नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
सोहेल अहमद खान	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
श्रीनिवासुलु सी (अनु०ज०जा०)	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
चम्पा ए आर	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
आर वीरभद्रैय	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
पी महेन्द्रन (अनु०जा०)	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
वी मंजूनाथ स्वामी	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
एस जोनस पीटर	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
एन एम कुन्जप्पा	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
चन्द्रिका एन	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
संतोष कुमार चौरसिया	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
जयकुमार ए	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
सरथलाल एस	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014

नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
अरुण कुमार एम	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
अंजना यू आर	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
जिजोमोन जोसेफ	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
हेमन्थ पी डी	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
मल्लिकाअर्जुन एन	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
उमेश कुमार (अनु०पि०जा०)	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
यदुनन्दन एस (अनु०ज०जा०)	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
प्रवीन कुमार जरजाना (अनु०जा०)	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
विजय कृष्णा (अनु०ज०जा०)	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
श्रीषा सिजिन बाबू	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
बानू प्रकाश	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
शिजू एस (अनु०जा०)	ए०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014

नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
देशपान्डे एच बी	ए०डी०ई०	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
संपत कुमार टी	ए०डी०ई०	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
नुसराथुल्ला बैग	ए०डी०ई०	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
वेंकटलक्ष्मी ए वी	ए०डी०ई०	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
महेन्द्रन पी (अनु०जा०)	ए०डी०ई०	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
जयराम गोवडा ए	ए०डी०ई०	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
डी आर गायकवाड	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—सी	तकनीकी अधिकारी—डी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—7600 /—	01.09.2014
एस पी तारे	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—सी	तकनीकी अधिकारी—डी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—7600 /—	01.09.2014
एन वाई पाठक	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
एस आर तिपनवर	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
ए सोभा	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
आर जी नन्दनवर (अनु०जा०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014

नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
एस एन खनडाडे	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
जेड बी रासकर	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
वी एस पुनीकर	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
आर एस पाटिल	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
यू डी धुमल (अनु०ज०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
एन एन वाथोरे (अनु०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
एस एम कुलकर्णी	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
वी सी घाटे	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
डी टी भोसले (अनु०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2014
एच एम शाह	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2014
जे वाई गुडवे	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2014
एस डी शर्मा	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2014

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
एस के घाग	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
के एस चावान	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
पी डी मैथयु	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
आर बी यादव	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
वी वी टूप्पे	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
एन ए दिग्घे	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
एन एच बावलेकर	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
ए के भटनागर	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
डी टी कोराडे (अनु०पि०जा०)	ए०आर०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
डे राजीब लोचन	ए०आर०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
सिंह जी सी	ए०आर०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
यादव एस के	ए०आर०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014

नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
सत्येन्द्र प्रसाद	ए०आर०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
शर्मा ए के	ए०आर०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
गंगुरडे प्रदीप जी (अनु०ज०जा०)	ए०आर०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
आई जी सय्यद	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
कुम्भार वी बी	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
कोथाले एम आर	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
रनदीव बी एस (अनु०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
नरगुन्ड एल वी	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
पाटिल डी वी	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
वावीकर एस डी	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
सुर्यावन्शी एस जे	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
पवार आर के (अनु०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014

नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
दिनेश चौहान	सीफीस	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2014
कपिल गर्ग	सीफीस	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
सुभाष (अनु०ज०जा०)	सीफीस	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
जे देवसज्जम	डी०ए०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2014
एस कोकिला	डी०ए०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2014
जैकब जकारिया	डी०ए०आर०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
वी विद्या	डी०ए०आर०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
प्रोज्जवल बेनर्जी	डी०आई०सी०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
संजय मांझी (अनु०जा०)	डी०आई०सी०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
शरत कुमार राय	डिहार	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
आशीष कुमार	डिहार	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
राधे श्याम (अनु०जा०)	डी०आई०पी०आर०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 / —	01.09.2014
प्रताप सिंह सैनी	डी०आई०पी०आर०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014

नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
सचिन कुमार	डी0आई0पी0आर0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
मनीष कुमार मिश्रा	डी0एल0जे0	तकनीकी अधिकारी-सी	तकनीकी अधिकारी-डी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-7600 / -	01.09.2014
वी के चौहान (अनु0जा0)	डी0एल0जे0	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
राम प्रसाद सामन्त (अनु0ज0जा0)	डी0एल0जे0	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
डा0 एस सी नेगी	डी0एल0जे0	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
जी एस गहलोत	डी0एल0जे0	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
ए एस जोधा	डी0एल0जे0	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
वासु देव (अनु0जा0)	डी0एल0जे0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2014
पवन कुमार (अनु0जा0)	डी0एल0जे0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2014
राजीव संखला	डी0एल0जे0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2014
घनश्याम गुर्जर	डी0एल0जे0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2014
संतोष कुमार	डी0एल0जे0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
गजेन्द्र पाल सिंह	डी0एल0जे0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014

नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
जय नारायण (अनु०ज०जा०)	डी०एल०जे०	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
उमर फारुक	डी०एल०जे०	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
जी शोभन राव (अनु०जा०)	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी—सी	तकनीकी अधिकारी—डी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—7600 / —	01.09.2014
वी कृष्णा मोहन	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 / —	01.09.2014
के श्रीनिवास राव	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 / —	01.09.2014
सीएचएसआरके शर्मा	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 / —	01.09.2014
के रामास्वामी चौधरी	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2014
मोहम्मद अफजल	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2014
हनमंथ (अनु०ज०जा०)	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2014
एम सेलू (अनु०जा०)	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2014
टी राजा गोपाल राव	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2014
एस वी एल रतनाम	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
ए वी फनी किरन	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
राहुल अशोक रामटेके (अनु०जा०)	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
के बी एन दुर्गा राव	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
ललित कुमार शाह	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
संदीप कुमार चौधरी (अनु०जा०)	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
दीपक कुमार (अ०पि०जा०)	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
विपिन सिद्धार्थ रामटेके (अनु०जा०)	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
एस भगवान पाठक	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
प्रवीन कुमार (अनु०जा०)	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	08.09.2014
ए सतीश कुमार	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
जी शीशगिरि राव (अ०पि०जा०)	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
रनजिनी के बालन (अ०पि०जा०)	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014

नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
प्रदीप कुमार मोई (अनु०जा०)	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
के गोपीनाढा रेड्डी	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
नक्का साई वर्धन (अ०पि०जा०)	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
टी श्रीनिवास (अ०पि०जा०)	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
जे किरन	डी०एम०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
टी सुधाकर	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
बुचेह (अनु०जा०)	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
जी वेंकटस्वामी	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
अशोक	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
पी शंकर (अनु०ज०जा०)	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
ए यादगिरी	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
एच एस जहूर अहमद	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
वी एस श्रीवास्तव	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 / —	01.09.2014

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
एस के शाक्यवार (अनु०जा०)	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600/-	01.09.2014
हरजीत सिंह	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600/-	01.09.2014
अमर कांत घोष	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
राजेन्द्र मोहन (अनु०जा०)	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
शैलेंद्र त्रिपाठी	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
ए के मिश्रा	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
देव रूप आर्या	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
नन्द किशोर तिवारी	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
अनीश कुमार वाजपेयी	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
भरत लाल पटेल	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
देव सिंह	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
बिरंजन सतपथे	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
रविन्द्र चौहान (अनु०ज०जा०)	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014

नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
सुमित कुमार	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
अजय कुमार	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
विशाल अरोड़ा	डी०टी०आर०एल०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
के मनोहरस्वामी	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—सी	तकनीकी अधिकारी—डी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—7600 / —	01.09.2014
जी एन नागराज	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—सी	तकनीकी अधिकारी—डी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—7600 / —	01.09.2014
अशोक भूषण	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 / —	01.09.2014
सय्यद पाचा	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 / —	01.09.2014
एच आर नटराज	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 / —	01.09.2014
गुन्डप्पा	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 / —	01.09.2014
वी के शर्मा	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 / —	01.09.2014
टी सी प्रकाश	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2014
जी वी लक्ष्मी नारायण राव	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2014

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
आर अनुराधा	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
शाबाना तस्नीम	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
एच ए कृष्णा (अनु०ज०जा०)	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
पी कनकराज (अनु०जा०)	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
एल शिल्पा	जी०टी०आर०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
सजीथ सुकुमारन जानकी	जी०टी०आर०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
मेघालक्ष्मी रोहन जोशी	जी०टी०आर०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
बी डी कुसुम	जी०टी०आर०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
के बिजीश	जी०टी०आर०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
सुशांत कुमार ढल	जी०टी०आर०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
जयेश पनेरी	जी०टी०आर०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
जी वी सत्यानाराण	जी०टी०आर०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
ए पी शिनोज	जी०टी०आर०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
रेखा कन्नाम्मानावारा (अनु०ज०जा०)	जी०टी०आर०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
एस मंजूनाथ (अनु०ज०जा०)	जी०टी०आर०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
ए मुरली	जी०टी०आर०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
एस एच जायन्ना (अनु०ज०जा०)	जी०टी०आर०ई०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
टी आर शिवरमन	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
के इरुदयाराज	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
सी एफ दसिल्वा	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
एम सेल्वापन्डियन	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
एस सुन्दरसन (अनु०जा०)	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
शंकर नाइक (अनु०जा०)	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
वी सम्पथ कुमार (अनु०जा०)	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
एम सुरेन्द्रन (अनु०जा०)	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
पी गोपी	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014

नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
नगेशचारी	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600 / -	01.09.2014
एस एस जगताप	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी-सी	तकनीकी अधिकारी-डी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-7600 / -	01.09.2014
आर आर शाह	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
डी एस वानी	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
वी जी सदाकाले (अनु०जा०)	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
आर टी खाडसे	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
एच पी सोनावाने (अनु०जा०)	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
आर बी थोसर	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
बी जी पाटिल	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
आई बी गाडे	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
पी के दिवेकट	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
डी डी गायकवाड	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
ए ए तम्बोली	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014

नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
सी आर जी नायडू	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2014
बी एस गडाडे	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2014
आर एन गायकवाड	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2014
के वी राउत	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2014
कुमार अभिषेक राज	एच.ई.एम.आर.एल.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
जी टी काची	एच.ई.एम.आर.एल.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
नन्द किशोर सिंह	एच.ई.एम.आर.एल.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
एस एच वागमारे	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
ए बी संगाले (अनु०ज०जा०)	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
ए एम जाधव (अनु०जा०)	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
वी पी डेविड	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014
पी ए सलुन्के	एच.ई.एम.आर.एल.	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 / —	01.09.2014

नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
ए०एन० शिन्दे (अनु०ज०जा०)	मिलिट	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014

डा० बी०के० मिश्रा
अपर निदेशक (कार्मिक—टी०सी०)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 90, दिनांक 08 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को वर्तमान ग्रेड से उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख (पूर्वाह्न) से अगले ग्रेड में सहर्ष पदोन्नत करते हैं:—

नाम श्री / श्रीमती / सुश्री / कु०	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
नारायण सिंह (अनु०जा०)	ए.डी.आर.डी.ई.	तकनीकी अधिकारी—सी	तकनीकी अधिकारी—डी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—7600 /—	01.09.2014
संजीव जैन	ए.डी.आर.डी.ई.	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
विनोद कुमार (अनु०जा०)	ए.डी.आर.डी.ई.	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
लोकेन्द्र सिंह (अनु०ज०जा०)	ए.डी.आर.डी.ई.	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
रवि कुमार (अनु०जा०)	ए.डी.आर.डी.ई.	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
प्रगति अग्रवाल	ए.डी.आर.डी.ई.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
मनीष कुमार सिंह	ए.डी.आर.डी.ई.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु०	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
ग्लाडविन कुमार (अनु०ज०जा०)	ए.डी.आर.डी.ई.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
लोटन सिंह	ए.डी.आर.डी.ई.	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
राजवीर सिंह	ए.डी.आर.डी.ई.	तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
मोहम्मद युनुस	डी०ई०ए०एल०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
बाबू राम कालरा (अनु०जा०)	डी०ई०ए०एल०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
विकास कारा (अनु०जा०)	डी०ई०ए०एल०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
मांघे राम (अनु०जा०)	डी०ई०ए०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
आर एस कपिल (अनु०जा०)	डी०ई०ए०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
आर सी भटनागर	डी०ई०ए०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	15.09.2014
डाकपाल सिंह (अनु०जा०)	डील	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
विकास	डील	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
मामचन्द सिंह (अनु०जा०)	डील	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु०	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
अशोक राणा	डील	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
निशा तनेजा	डील	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
सतेन्द्र कुमार (अनु०ज०जा०)	डील	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
मोहम्मद आजम	डील	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
रवीन्द्र के पन्त	डील	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
प्रदीप सहदेव	डील	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
बलबीर सिंह	डील	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
एस जेना	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600/-	01.09.2014
टी साईराम पात्रो	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
असित कुमार दास	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
बाबू राम डे	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
एस एम साहू	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
एस के कबि	आई०टी०आर०	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु0	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु0)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
एस0बी0 मोरे	ए0सी0ई0एम0 नासिक	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	03.09.2012
सी0 नरायन स्वामी	ए0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
गोपालकृष्ण	ए0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
एस0 उमेश (अनु0जा0)	ए0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
ए0आर0 वेंकटेश	ए0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
डी0के0 देवराज	ए0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
ए0के0 कुबेरप्पा (अनु0जा0)	ए0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
जेरोमे मार्शल	ए0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
एन0 बालाचन्द्रन	ए0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
बी0एन0 विजयकुमार	ए0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
नागराज	ए0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
एम0एम0 रमया (अनु0ज0जा0)	ए0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
के0 रामकृष्णप्पा	ए0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु०	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
एस० मुरली (अनु०ज०जा०)	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
एन०ए० बोरेगौवडा	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
पी०वी० शशीधर	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एम०डी० आरिफुल्ला	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एम० श्रीधरन (अनु०जा०)	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
सफीर अहमद	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एच०एस० पार्थसारथी	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
के०एस० वेंकटेश	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एस० रामकृष्णाचारी	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एम०एन० येकन्थइया	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एस० वेलायुदम	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
ए०एम० इनामदार	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एम अरुमुगम (अनु०जा०)	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु०	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
जी० विश्वनाथ	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
डी० नागेश	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
थियागराजन ए०एस०	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
मन्जुला एस०	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
एच०एस० मन्जुनाथ राव	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
के० अम्बरासन (अनु०जा०)	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
पी० दण्डपाणी (अनु०जा०)	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
जी० भारती	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
अंजनप्पा (अनु०ज०जा०)	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
डी अबेल	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
एस० रवीन्द्र (अनु०जा०)	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
पी०जे० रीमोन	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु०	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
एस० राजशेखरन (अनु०जा०)	ए०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
एच०एन० तुलसी अम्माल	आर०आई०सी०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
वी० एलुमलई	आर०आई०सी०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
गरु राम (अनु०जा०)	डिहार	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
तिलक राज (अनु०जा०)	डिहार	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
आर०पी० भालगाट	आर०एण्डडी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
पी०बी० बलवन्त राव (अनु०ज०जा०)	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
एल०एस० गारे (अनु०ज०जा०)	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
एन०के० गारिया (अनु०जा०)	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
पी०डी० धावलेकर	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
डी०ए० वावरे	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
के०ए० पाटिल	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
वी०एस० काकटीकर	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु0	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु0)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
एम0एम0 पुलगम (अनु0ज0जा0)	आर0डी0ई0(ई0)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
एम0आर0 त्रिभुवन	आर0डी0ई0(ई0)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
एस0जे0 निकम	आर0डी0ई0(ई0)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
वी0एस0 भोसले	आर0डी0ई0(ई0)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
ए0पी0 लाडकट	आर0डी0ई0(ई0)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
डी0आर0 गुलहाने	आर0डी0ई0(ई0)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
एच0एस0 कारकर	आर0डी0ई0(ई0)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
एस0एस0 लोनकर	आर0डी0ई0(ई0)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
वाई0टी0 अहिवाले (अनु0जा0)	आर0डी0ई0(ई0)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
ए0डी0 भोसले (अनु0जा0)	आर0डी0ई0(ई0)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
सी0एस0 जगताप (अनु0जा0)	आर0डी0ई0(ई0)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
जी0 जयप्रकाश	आर0डी0ई0(ई0)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु०	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
बी०ई० मोरे	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एल०एन० भोसले	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एम०एस० गोडसे	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
आर०वी० शिलेडर	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
एस०एम० भावे	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
डी०सी० खाडे (अनु०ज०जा०)	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
एस०एन० दुबे	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
बी०वाई० मोटे	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
क्लारा जैकब	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
सरिता पी० गुसांई	आर०डी०ई०(ई०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
वी० वरद राजू	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
टी०एस० प्रकाश भट	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
के० सिल्वेस्टर	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु०	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
एस० बकिआराज	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
आर०एस०एन० मूर्ति	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
बी०टी० जगदीश	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
के०पी० राजेगोवडा	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
के०के० थिलेक्सी	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
जी०आर० नागवेनी	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
एस० गुरुमूर्ति	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
डी०एस० रावत	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
एस० शारदा	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
डी० नागरात्ता (अनु०ज०जा०)	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
एस० नागराज	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
के० सुब्रमन्य भट	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
एन० दिनेश	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु०	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
एम०एम०क्यू० केरुर	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
ए० महालिंगम (अनु०जा०)	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
पी०के० अशोक	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एम० सम्पतकुमार (अनु०जा०)	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
ए० शंकर	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
डी०पी० कृष्णामूर्ति राव	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
सत्या प्रेमकुमारी सी०	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
राजगोपाल एस०	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
मोनिका शान्ति आई०	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
रामाकृष्णा जी०	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
प्रेम चन्द्रन ए०	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
जी० सशीकला (अनु०जा०)	एल०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु0	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु0)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
पालनिवेलु एस0	एल0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
जेस्सी विल्सन	एल0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
जगदीशा	एल0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
बी0एस0 सुब्बान्ना	एल0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
प्रेम कुमार रामपाल	एल0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
एल0 थामस	एल0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
बी0आर0 चन्द्रावति (अनु0जा0)	एल0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
वी0 पान्दुरंगन	एल0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
जी0 रवीकुमार	एल0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
ए0के0 पान्डा	आई0टी0आर0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
संजीवन बोदरा (अनु0ज0जा0)	आई0टी0आर0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
लोकनाथ नाइक (अनु0ज0जा0)	आई0टी0आर0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	02.09.2011
ज्योति इक्का (अनु0ज0जा0)	आई0टी0आर0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	03.09.2011

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु०	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
रंजन कुमार नाइक (अनु०ज०जा०)	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2011
गयाधर सेठी (अनु०जा०)	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
के०बी० दासबाबू	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
पी०एस० सेनापति	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
दयानिधि नायक (अनु०ज०जा०)	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
आर०के० नाइक (अनु०ज०जा०)	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
जे०आर० नायक (अनु०ज०जा०)	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
पी०के० मोहन्ती	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
हेमन्त कुमार बागे (अनु०ज०जा०)	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
मानस्विनी दास	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
ए०के० प्रधान (अनु०ज०जा०)	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
जी०एन० दास	आई०टी०आर०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
रेखा बिन्दु (अनु०जा०)	ईसा	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु०	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
नरेन्द्र सिंह (अनु०ज०जा०)	ईसा	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
एल० वेंकटैड्या (अनु०जा०)	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
पी० मनिक्यम	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
सी० शंकरनाथ	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
के० वेंकट लक्ष्मी	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
ए० राजू	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
ए० नरसिंह राव (अनु०जा०)	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
जी० देवकी नंदन	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
यू० मनमोहन	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
डी० शरणप्पा	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
टी० वेंकट सुब्बा राव	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
पी०एन०बी० प्रताप (अनु०जा०)	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु0	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु0)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
के0 कृष्णा मूर्ति	डी0आर0डी0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
एस0 गिरिजा देवी	डी0आर0डी0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
राम सिंह (अनु0जा0)	डी0आर0डी0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
सी0 बाबू प्रसाद	डी0आर0डी0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
जे0 श्रीनिवास राव (अनु0जा0)	डी0आर0डी0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
पी0 भूदैइया (अनु0जा0)	डी0आर0डी0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
बी0 सुकन्या देवी	डी0आर0डी0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
मगन्ती रमन कुमार	डी0आर0डी0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
पी0 सुब्बा राव	डी0आर0डी0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
के0 सुब्बा राव	डी0आर0डी0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एस0 विनोद कुमार	डी0आर0डी0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
आई0 लक्ष्मीनारायण	डी0आर0डी0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
पी0 पान्दुरंगास्वामी	डी0आर0डी0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु०	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
एस० राजसेखर (अनु०जा०)	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
बी० बालानरसिमुलु	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
एम० शाजहान	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
एम० चन्द्रशेखर	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
के० नरेन्द्र राव (अनु०जा०)	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
एम०डी० हुसैन	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
डी० महेश्वर (अनु०जा०)	डी०आर०डी०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
बी०एम० डोबले (अनु०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
एम०डी० जलीन्दरे	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
सुहास ए० भाटमरेकर (अनु०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
ई०एम० जाधव (अनु०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
के०के० शिंदे	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
एस०एम० कुलकर्णी	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु०	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
सी०एम० लोनकर	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
एस०एस० देशपांडे	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
आर०आर० निवाल	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
एस०पी० अवाचट	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
एस०जी० शिंदे (अनु०ज०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
टी०डी० संगमनेरकर	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
जे०जे० बागुल (अनु०ज०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
आर०वी० धावले (अनु०ज०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
प्रेमसिंह मारला (अनु०ज०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
एम०एस० काम्बले (अनु०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
ए०के० शैख	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एम०के० कुरेशी	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	08.09.2012

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु0	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु0)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
एम0एस0 फाल्के (अनु0जा0)	ए0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
डी0वी0 टनडाले	ए0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
एस0वी0 देशपान्डे	ए0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
डी0डी0 टेमकर	ए0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
ए0आर0 गावडे	ए0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
वी0के0 पिल्लई	ए0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
एस0एस0 किरान्गे	ए0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
एस0एस0 वांगले	ए0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
एस0एस0 देशपान्डे	ए0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
एस0एल0 लोखान्डे	ए0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	02.09.2013
के0डी0 जोशी	ए0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	02.09.2013
एस0आर0 खराटे (अनु0जा0)	ए0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	02.09.2013
आर0आर0 मंगनी	ए0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 /—	02.09.2013

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु०	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु०)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
वी०एन० चावन	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
बी०आर० जाधव	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
ए०जी० गाइकवाड (अनु०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
पी०एस० पोटदार	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
एन०के० निरोखेकर	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
के०के० शर्मा	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
एम०डी० हिरावे	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
ए०जी० तेन्गाले	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
आर०आर० नाथ	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
यू०जी० अंभोरे (अनु०जा०)	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
वी०बी० कुलकर्णी	ए०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
रोहिताशव कुमार सिंह	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
अजय सिंह	डी०एम०एस०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु0	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु0)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
चन्द्र शेखर (अनु0जा0)	डी0एम0एस0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
ए0के0 श्रीवास्तव (II)	डी0एम0एस0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
एस0के0 अग्रवाल	डी0एम0एस0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
पूनम अवस्थी	डी0एम0एस0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
राकेश कुमार यादव	डी0एम0एस0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
यू0एस0 विश्वकर्मा	डी0एम0एस0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
राज कुमार (अनु0जा0)	डी0एम0एस0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
शील पोरवाल	डी0एम0एस0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
आर0डी0 वर्मा (अनु0ज0जा0)	डी0एम0एस0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
दीपक कुमार यादव	डी0एम0एस0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
कुलदीप सिंह सेइया (अनु0जा0)	डी0एम0एस0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
के0 लोकोश्वर रेड्डी	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	02.09.2011
एन0 गंगा बाई (अनु0ज0जा0)	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु0	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु0)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
ए0 उमा देवी	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2011
पी0 भानुमति देवी	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2011
जी0 कट्टैया	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
ए0 वेनुगोपाल	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2011
बी0 वीरय्या (अनु0ज0जा0)	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2011
ए0 पुल्ला रेड्डी	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
एन0 बालाजी	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
पी0 रुषा कुमारी	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
आर0वी0 कृष्णा (अनु0जा0)	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एन0 सम्बासिवा राव	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
वी0 अशोक राजू	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एम0वी0 राजेश्वरी (अनु0जा0)	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु0	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु0)	पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
जी0वी0वी0 रेड्डी	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	02.09.2013
पी0 विनोद कुमार	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
पी0 श्रीनिवास राव	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	02.09.2013
के0 पुरुषोत्तम दास	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	02.09.2013
नामा सत्यनारायन (अनु0जा0)	डी0एल0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	02.09.2013
एन0 सुन्दर	एस0पी0आई0सी0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011

आदर्श कुमार
संयुक्त निदेशक (कार्मिक—टी0सी0)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 18th April 2015

D(MS) SECTION

No. 83, dated 26th March 2015—The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff w.e.f. 01 Oct 2014: -

Honorary (ARMY) ADC

IC-31324M Lt Gen K Surendranath, AVSM**, SM, VSM, Armd

Vice

IC-30462F Lt Gen AS Chabbewal, PVSM, AVSM, YSM, Armd (Retired)

Arty:AAD (4:1 ratio)

IC-30408N Lt Gen VK Narula, AVSM, SM, Arty

Vice

IC-30392N Lt Gen RP Dastane, AVSM, VSM, Arty (Retired)

The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01 Nov 14 : -

Honorary (Air) ADC

Air Mshl SS Soman, AVSM, VM (14681) F(P)

REVATI RAMAN
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 84, dated 27th March 2015—

MUKHAYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

The President is pleased to appoint the following Assistant (Group 'B', Non-Gazetted) of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B', Gazetted) in the Pay Band-II (Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4800/-) with effect from the date mentioned against their respective names:

S.No.	Name	Date of Birth	Date of promotion
1	Shri DS Shokeen	01 Feb 1962	26 May 2001
2	Shri Umedi Lal Meena	03 May 1966	26 May 2001
3	Shri Ram Swarup (Retd.)	25 Aug 1952	26 May 2001
4	Shri Azad Singh Bodhwal (Retd.)	05 Mar 1948	01 Apr 2002
5	Shri SK Jain	11 Dec 1963	01 Apr 2002
6	Shri Satbir Singh Singhal (Retd.)	10 Jun 1951	01 Apr 2002
7	Shri Khushal Chandra	17 Jan 1966	01 Apr 2007
8	Smt. Baby Rani	21 Oct 1967	01 Apr 2007
9	Smt. Rathika Venkataraman	30 Apr 1967	01 Apr 2007
10	Shri Mahesh Kumar	17 Nov 1967	01 Apr 2004
11	Smt. Sushila Devi (Retd.)	10 Mar 1954	01 Apr 2004
12	Smt. Nirmal Birdi	06 Apr 1955	01 Apr 2005
13	Shri BL Chatwal (Retd.)	19 Aug 1947	01 Apr 2007
14	Km. Gurnam (Retd.)	02 Jul 1948	01 Apr 2007
15	Shri Shishir Kumar Singh	30 Dec 1969	01 Apr 2007

S.No.	Name	Date of Birth	Date of promotion
16	Smt. Daljeet Kaur	15 Jul 1968	01 Apr 2007
17	Shri Vinod Sarup Sharma (Retd.)	05 Nov 1948	01 Apr 2007
18	Shri Gurbachan Lal Batra (Retd.)	03 Nov 1948	01 Apr 2007
19	Shri Anand Vardhan Gaur (Retd.)	28 Jul 1950	01 Apr 2007
20	Shri Rajbir Singh	14 Aug 1955	01 Apr 2007
21	Shri Gabar Singh Rawat (Retd.)	10 Sep 1949	01 Apr 2007
22	Shri Rejoyson Rakhagmi	05 Feb 1969	01 Apr 2007
23	Shri ML Makhija (Retd.)	16 Jul 1949	01 Apr 2007
24	Shri RK Ghosh (Retd.)	08 May 1950	01 Apr 2008
25	Smt. Tirlochan Kaur	06 Aug 1960	01 Apr 2009
26	Smt. Jasbir Kaur Bhasin (Retd.)	22 Sep 1950	01 Apr 2009
27	Smt. Beena Rani	10 Mar 1956	01 Apr 2008
28	Shri Ashok Kumar Sinha	13 Jan 1970	01 Apr 2009
29	Shri Arun Kumar Mahto	09 Aug 1971	01 Apr 2009
30	Shri Umed Singh (Retd.)	31 Mar 1952	01 Apr 2011
31	Smt. Ravi Kanta Sharma (Retd.)	12 Mar 1952	01 Apr 2011
32	Shri D. Choudhary (Retd.)	28 May 1951	01 Apr 2010

SARVJEET SINGH
Dy. Chief Administrative Officer (A)

NATIONAL CADET CORPS

MS(D)

No. 85, dated 30th March 2015—The under mentioned Vice Chancellors are granted the honorary rank of Colonel in the National Cadet Corps and are appointed as Colonel Commandant of their respective University as shown against their name for the period of their appointment as Vice Chancellor of the said University.

Sl No.	Name of vice Chancellor	Name of the Dte	Name of the University	Date of appointment as Vice Chancellor
1.	Dr RL Godara Vice Chancellor	GUJ	Hemchandracharya North Gujrat University, Patan	16-09-2013
2.	Prof Arun Kumar Grover Vice Chancellor	PHHP&C	Panjab University, Chandigarh	23-07-2013
3.	Dr SK Patil Vice Chancellor	MP&CG	Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur	02-11-2011
4.	Dr Umesh Kumar Mishra Vice Chancellor	MP&CG	Chattisgarh Kamdhenu University, Durg	22-05-2012
5.	Prof Manoranjan Kar Vice Chancellor	ODISHA	Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswer	17-03-2013
6.	Prof Mrs Chandra Krishnamurthy	TN	Pondichery University Puducherry	01-02-2013

DM GUPTA
Brig
Dy Dir Gen (MS)

AIR BRANCH

No. 86, dated 31st March 2015—The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned officer of 129 GDOC wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

EX-FLT CDTS TO BE FG OFFR

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Manpreet Singh (32157) wef 29 Dec 11.

The President is pleased to award Permanent Commission (On Probation) and Brevets in the Flying (Navigator) branch of the IAF to the undermentioned Seven officers of 114 NAV (189 Pilot Course) in the rank of Fg Offr wef 30 Jun 12 under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC(On Probation) & Brevets i.e. 30 Jun 12.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Ved Prakash Prajapat (32396), Rohit Gupta (32407), Udit Kumar Jadon (32425), Pravin Kumar Vinod Rai (32429), Sandeep Kumar (32446), Manish Dahiya (32451), Bhupender Rangi (32462) wef 30 Jun 12

The President is pleased to award Permanent Commission (On Probation) and Wings to the under mentioned officers of 189 Pilot Course in the rank of Fg Offr wef 30 Jun 12, under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC(On Probation) & Wings i.e. 30 Jun 12.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Ex Flight Cadets To Be Flying Officers

Fg Offr Naveen Lather (32392), Keshav Yadav (32394), Aman Gupta (32397), Saurabh Sethi (32399), Amit Kumar Chauhan (32400), Shashi Bhushan Gajendra Rai (32401), Vikram Malik (32402), Ankit Shrivastava (32404), Nagendra Reddi Putluri (32405), Atul Mishra (32409), Prashant Katiyar (32411), Nitin Singhal (32413), Abhay Singh Bhadoria (32414), Shubham Gautam (32415), Ashish Hooda (32418), Akhil Bhaskaran Girija Nair (32419), Sangramsih Mahadeo Patil (32421), Birendra Kumar Mahto (32422), Vikas Singh Chauhan (32424), Kanhaiya Kaushik (32426), Sandeep Rakshit (32427), Viral Chaudhary (32428), Vivek Yadav (32431), Sushant Dhiman (32432), Deepak Sharma (32436), Tejas Bhagwan Shinde (32437), Vishnu Vithoba Shirsat (32438), Aniket Arun Patil (32439), Anubhav Sachdev (32440), Pramod Kumar Singh (32441), Gajendra Pratap (32442), Vikas Pathak (32443), Piyush KR Rai (32445), Piyush Kumar Singh (32448), Amit Singh Narwal (32449), Anuj Verma (32450), Manish Mohanta (32452), Vinitav Kumar (32453), Karan Saluja (32454), Sumit Milind Kanade (32455), Yash Raj (32457), Saurabh Jaswal (32458), Praval Sharda (32459), Wef 30 Jun 12.

The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned officers of 130 GDOC wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

ADMINISTRATIVE BRANCH

Ex-Flt Cds To Be Fg Offr

Fg Offr Karan Singh (32463), Shreyansh Upadhyay (32464), Ambika Pratap Singh (32465), Santosh Kumar Yenneti (32466), Avinash Kumar Tiwari (32467), Mukesh Michael (32468), Bijendra (32469), Rajesh Kumar (32470), Sunil (32471), Ashwani Dubey (32472), Victor Ahamthem (32473), Arvino Joseph Newman (32474), Abhishek Pandey (32475), Prem Ranjan Tiwary (32476), Gaurav Singh (32477), Koteswara Rao Sistu (32478), Jogindar Pal Singh (32479) wef 30 Jun 12.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Nishan Bansal (32480), Shiv Kumar Sharma (32481), Parshant Kumar (32482), Abhinav Mahajan (32483), CM Sreejith (32484) wef 30 Jun 12.

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Sanjay Kumar kandpal (32485), Rahul T (32486), Dhiraj Rakesh Rajput (32487) wef 30 Jun 12.

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Venkatesh Prabhu S (32488) wef 30 Jun 12.

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Bhabajyoti Dhar (32489) wef 30 Jun 12.

The President is pleased to grant Permanent Commission (On Probation) to the undermentioned Flt Cdt (Ex-Airman) of 81 AEC in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFI 20/76.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Rajesh Kumar Mohapatra (33123) wef 08 Jul 13.

The President is pleased to grant Short Service Commission (On Probation) to the undermentioned officers of 81 AEC in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Chinthu Krishnan Vijayaraghavan (32609), Abhinav Sharma (32610), Suman Majumder (32611), Rohit Prabhunath Prasad (32612), Ravi Kumar (32613), Prudhvi Raj Seepana (32614), Pranav Sharma (32615) wef 09 Jul 12.

Fg Offr Smruti Santak Mohanty (32725), wef 16 Jul 12.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers of 81 AEC (UES-2012) in the rank of Fg Offr wef the dates as mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258/ 1/PO3(A)/1611/DOIA/D(Air-III) dated 19 Oct 82.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Aditya Kumar (32603), Sanjay Kumar Sheorain (32604), Guruvayurappan AR (32605), Sukanush S (32606), Pranav Ranjith (32607), Salil Sharma (32608) wef 09 Jul 12.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Sandeep Saini (32616), Shikhar Kumar Mehta (32617), Anroop Singh (32620), Ankit Saini (32621), Retaish Wali (32622), Rahul Tiwari (32623), Kevin T Sebastian (32624), Valiveti Srinivasa V Chaithanya (32625), Aneesh Mahindroo (32626), Sooraj Madavanchalil Painki (32627), Ankit Chandra (32628), Ankit Agarwal (32629), Abhishek Jha (32630), Someshwar Shukla (32631), Abhinav Seth (32632), Akshat Singh Bora (32633), Ashutosh Gangwal (32637), Ashoo Kumar Pandey (32638), Sourabh Kumar Sharma (32639), Abhinav Chauhan (32640), Arnav Kumar Pandey (32641), Aviral Saxena (32643), Vijit Sahu (32644), Hemant Kumar (32645), Tushar Bisht (32647), Nitin Rai (32648), Mohammad Aqib (32650), Manik Jain (32651), Shrinivasan Sundararajan (32652), Abhinav Rastogi (32653), Naresh Sharma (32654), wef 09 Jul 12.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission (PSSC) and Brevets in Flying (Navigator) branch of the IAF to the undermentioned officer of 113 NAV (06 SSC(M) Pilot Course) in the rank of Fg Offr wef 29 Dec 11 under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/BM-IV dated 14 Jun 07. These officers are eligible for flying pay wef the date of grant of PSSC & Brevets i.e. 29 Dec 11.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Ex-Flight Cadets To Be Flying Officers

Fg Offr Samunder Singh Sodha (32178) wef 29 Dec 11

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission (PSSC) and Wings in Flying (Pilot) branch of the IAF, to the under mentioned officer of 06 SSC(M) PC, in the rank of Fg Offr wef 29 Dec 11 under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/BM-IV dated 14 Jun 07. The officers are eligible for flying pay wef the dates of grant of PSSC & Wings i.e. 29 Dec 11.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Ex Flight Cadets To Be Flying Officers

Fg Offr Surender Singh Rajput (32182), wef 29 Dec 11.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

ADMINISTRATIVE BRANCH

Ex-Flt Cdts To Be Fg Offr

Fg Offr Nidhi Singh (32565), Shingika Vermani (32566), Astha Tiwari (32567), Shikha Pandey (32568), Davinder Kaur (32569), Tomsy P Tom (32570), Seema Sangwan (32571), Anu Rana (32572), Surabhi Bhesania (32573), Deeksha Agarwal (32574), Shivani Roop (32575), Parul Tiwari (32576), Monika Vashist (32577), Anupriya (32578), Melda Saj (32579) wef 30 Jun 12.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Vibha Singh (32580), Vandana Dahiya (32581), Aditi Jain (32582), Srilekha Nath (32583), Ankita Vishnoi (32584), Akangsha Bali (32585), Maneka Kumari (32586), Vinita Prakash (32587), Swati Bisht (32588), Aninditi Sharma (32589) wef 30 Jun 12.

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Shruti Naik (32590), Geeta Pal (32591), Aradhana Kashyap (32592), Alaknanda Gopinath (32593), Anjani Kumari Mishra (32594), Anita Pandey (32595) wef 30 Jun 12.

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Hina Malik (32596), Shubhasree Deb (32597), Kamini Singh (32598), Madhumita Dutta (32599), Aditi Sharma (32600), Shikha Pathania (32601), Tinju Thomas (32602) wef 30 Jun 12.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission and Wings in Flying (Pilot) branch of the IAF to the under mentioned FIVE officers of 36 SSC(W) Pilot Course in the rank of Fg Offr wef 30 Jun 12, under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01. These officers are eligible for flying pay wef the dates of grant of PSSC & Wings i.e. 30 Jun 12.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Ex Flight Cadets To Be Flying Officers

Fg Offr Rumi Rukmani Sharma (32558), Lakshata Prashar (32560), Sanjana Singh (32561), Shruti Singh (32562), Oleti Krishnaiah Nimisha Kishore (32563) Wef 30 Jun 12

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the under mentioned officers of 23 SSC(M) GDOC wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

ADMINISTRATIVE BRANCH

Ex-Flt Cdts To Be Fg Offr

Fg Offr Thomas Ivan (32530), Deepak Kumar Verma (32531), Jay Narayan Shukla (32532), Dhann Singh (32533), Surender Singh (32534), Rohit Joshi (32535), Surender Kumar (32536), Lalrinchhana Zote (32537), Suraj Pradhan (32538), Arvind Kumar Dixit (32539), Rahul Vikash Dalvi (32540), Amresh Kumar Singh (32541), Shivraj Subhash Chavan (32542), Umakanth Singh (32543), Calvin A Jebha (32544), Diwakar Tomar (32545), Ashish Singh Chauhan (32546) wef 30 Jun 12.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Gaurav Dubey (32547), Sonu Yadav (32548), Aakash Dara (32549), Avtar Singh (32550), Nishi Kant Sarkhel (32551), Jay Tyagi (32552), Ajit Kumar Anand (32553), Siddhartha Datta (32554), Meinam Singh Shantikumar (32555), Abhishek Sharma (32556), Pranav Nagar (32557) wef 30 Jun 12.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission (PSSC) and Brevets in Flying (Navigator) branch of the IAF to the undermentioned Ten officers of 114 NAV (07 SSC(M) Pilot Course) in the rank of Fg Offr wef

30 Jun 12 under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/BM-IV dated 14 Jun 07. These officers are eligible for flying pay wef the date of grant of PSSC & Brevets i.e. 30 Jun 12.

INDIAN AIR FORCE
FLYING (NAVIGATOR) BRANCH
Ex-Flight Cadets To Be Flying Officers

Fg Offr Arpit Tandon (32498), Mohammad Rizwan (32499), M Anand (32510), Abhay Sharma (32513), Abhishek Singh (32515), Sanjeev Yadav (32518), J Bala Krishnan (32519), Saurabh Shekhawat (32525), Ankit Hari Soni (32528), Vaibhav (32529), wef 30 Jun 12

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission (PSSC) and Brevets in Flying (Navigator) branch of the IAF to the undermentioned two officers of 114 NAV (36 SSC(W) Pilot Course) in the rank of Fg Offr wef 30 Jun 12 under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/BM-IV dated 14 Jun 07. The officer is eligible for flying pay wef the date of grant of PSSC & Brevets i.e. 30 Jun 12.

INDIAN AIR FORCE
FLYING (NAVIGATOR) BRANCH
Ex-Flight Cadets To Be Flying Officers

Fg Offr Anusha Padala (32559), Nehmet Waraich (32564) wef 30 Jun 12

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission (PSSC) and Wings in Flying (Pilot) branch of the IAF, to the under mentioned twenty six officers of 07 SSC(M) PC, in the rank of Fg Offr wef 30 Jun 12 under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/BM-IV dated 14 Jun 07. These officers are eligible for flying pay wef the dates of grant of PSSC & Wings i.e. 30 Jun 12.

INDIAN AIR FORCE
FLYING (PILOT) BRANCH
Ex Flight Cadets To Be Flying Officers

Fg Offr Deepak Khiria (32494), Gurpreet Singh Rissam (32495), Nipun Saini (32496), Vivek Gairola (32497), Shashank (32500), Nikhil Kishor (32501), Mukesh K (32502), Bharat Kaushik (32503), Ajin Zacharia (32504), Deepanshu Dixit (32505), Narender Singh (32506), Arun B (32507), Vikas (32508), M Praveen Kumar (32509), Aditya Verma (32511), Amandeep Singh Dihot (32512), Vaibhav Sharma (32514), Jijo John (32516), Tarun Kumar Gupta (32517), Ravinder Singh Bansal (32520), Vishnu Gopinath (32521), Aditya Khatri (32522), Gaurav Sharma (32523), Dalveer Singh Bhangoo (32524), Devender Yadav (32526), Amit Malik (32527), wef 30 Jun 12.

D SHARMA
Wing Commander
JDPO- 3(D)

AIR BRANCH

No. 87, dated 1st April 2015—The President is pleased to terminate the Short Service Commission (on probation) granted to the undermentioned officers of 81 AEC and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98 and AFI 2/73 a/a by Corr 10/84.

INDIAN AIR FORCE
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Chinthu Krishnan Vijayaraghavan (32609), Abhinav Sharma (32610), Suman Majumder (32611), Rohit Prabhunath Prasad (32612), Ravi Kumar (32613), Prudhvi Raj Seepana (32614), Pranav Sharma (32615), Smruti Santak Mohanty (32725), wef 08 Jul 13.

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers of 81 AEC (UES-2012) and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258/1/PO3(A)/1611/DOIA/D(Air-III) dated 19 Oct 82.

INDIAN AIR FORCE
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Aditya Kumar (32603), Sanjay Kumar Sheorain (32604), Guruvayurappan AR (32605), Sukanush S (32606), Pranav Ranjith (32607), Salil Sharma (32608) wef 08 Jul 13.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Sandeep Saini (32616), Shikhar Kumar Mehta (32617), Anroop Singh (32620), Ankit Saini (32621), Retaish Wali (32622), Rahul Tiwari (32623), Kevin T Sebastian (32624), Valiveti Srinivasa V Chaithanya (32625), Aneesh Mahindroo (32626), Sooraj Madavanchalil Painki (32627), Ankit Chandra (32628), Ankit Agarwal (32629), Abhishek Jha (32630), Someshwar Shukla (32631), Abhinav Seth (32632), Akshat Singh Bora (32633), Ashutosh Gangwal (32637), Ashoo Kumar Pandey (32638), Sourabh Kumar Sharma (32639), Abhinav Chauhan (32640), Arnav Kumar Pandey (32641), Aviral Saxena (32643), Vijit Sahu (32644), Hemant Kumar (32645), Tushar Bisht (32647), Nitin Rai (32648), Mohammad Aqib (32650), Manik Jain (32651), Shrinivasan Sundararajan (32652), Abhinav Rastogi (32653), Naresh Sharma (32654) wef 08 Jul 13.

D SHARMA
Wing Commander
Joint Director
Personnel Offrs – 3(D)

AIR FORCE

No. 88, dated 6th April 2015—The President is pleased to make the following Substantive Promotion :-

INDIAN AIR FORCE

WG CDR TO BE SUBSTANTIVE GP CAPT (TS)

AE(M) BRANCH

Y RAJA RAO (15841) w.e.f 16 Dec 2004

D SHARMA
Wing Commander
Joint Director
Personnel Offrs – 3(D)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 89, dated 7th April 2015—The President is pleased to promote the following officers from existing grade wef the date (F/N) as mentioned against each:-

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
NS NAGARATHNA	ADE	TO-C	TO-D	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 7600/-	01.09.2014
VV ACHARYA	ADE	TO-C	TO-D	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 7600/-	01.09.2014
A AMALANATHAN	ADE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
C VELAVAN (SC)	ADE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
K SADASIVACHAR	ADE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
K SATYANARAYANA	ADE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
A JAYACHANDER (SC)	ADE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
G PADMANABHAN	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
R RAMESH NAYAK (ST)	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
SUNIL P	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
SUNDER RAJAN K	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
JAGADISH KUMAR TS	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
SOHAIL AHMED KHAN	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
SRINIVASULU C (ST)	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
CHAMPA AR	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
R VEERABADRAIAH	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
P MAHENDRAN (SC)	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
V MANJUNATHA SWAMY	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
S JONES PETER	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
NM KUNJAPPA	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
CHANDRIKA N	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SANTOSH KUMAR CHOURASIA	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
JAYAKUMAR A	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SARATHLAL S	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
ARUN KUMAR M	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
ANJANA UR	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
JIJOMON JOSEPH	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
HEMANTH PD	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
MALLIKARJUNA N	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
UMESH KUMAR (OBC)	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
YADUNANDANA S (ST)	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
PRAVEEN KUMAR JARJANA (SC)	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
VIJAYA KRISHNA (ST)	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SHREESHA SIJIN BABU	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
BANU PRAKASH	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SHIJU S (SC)	ADE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
DESHPANDE HB	ADE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SAMPATH KUMAR T	ADE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
NUSRATHULLA BAIG	ADE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
VENKATALAKSHMI AV	ADE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
MAHENDRAN P (SC)	ADE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
JAYARAM GOWDA A	ADE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
DR GAIKWAD	ARDE	TO-C	TO-D	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 7600/-	01.09.2014
SP TARE	ARDE	TO-C	TO-D	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 7600/-	01.09.2014
NY PHATAK	ARDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
SR TIPPANWAR	ARDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
A SOBHA	ARDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
RG NANDANWAR (ST)	ARDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
SN KHANDADE	ARDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
ZB RASKAR	ARDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
VS PUNEKAR	ARDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
RS PATIL	ARDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
UD DHUMAL (ST)	ARDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
NN WATHORE (SC)	ARDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
SM KULKARNI	ARDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
VC GHATE	ARDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
DT BHOSALE (SC)	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
HM SHAH	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
JY GUDWAY	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
SD SHARMA	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
SK GHAG	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
KS CHAVAN	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
PD MATHEW	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
RB YADAV	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
VV TUPE	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
NA DIGHE	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
NH BAWLEKAR	ARDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
AK BHATNAGAR	ARDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
DT KORADE (OBC)	ARDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
DEY RAJIB LOCHAN	ARDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SINGH GC	ARDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
YADAV S K	ARDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
SATYENDRA PRASAD	ARDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SHARMA AK	ARDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
GANGURDE PRADEEP G (ST)	ARDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
IG SAYED	ARDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
KUMBHAR VB	ARDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
KOTHALE MR	ARDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
RANDIVE BS (SC)	ARDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
NARGUND LV	ARDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
PATIL DV	ARDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
WAVIKAR SD	ARDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SURYANWANSHI SJ	ARDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
PAWAR RK (SC)	ARDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
DINESH CHAUHAN	CFEES	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
KAPIL GARG	CFEES	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SUBHASH (ST)	CFEES	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
J DEVASAGAYAM	DARE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
S KOKILA	DARE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
JACOB ZAKARIAH	DARE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
V VIDHYA	DARE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
PROJJWAL BANNERJEE	DIC	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
SANJAY MANJHI (SC)	DIC	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SHART KUMAR RAI	DIHAR	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
ASHISH KUMAR	DIHAR	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
RADHEY SHYAM (SC)	DIPR	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
PRATAP SINGH SAINI	DIPR	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SACHIN KUMAR	DIPR	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
MANISH KUMAR MISHRA	DLJ	TO-C	TO-D	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 7600/-	01.09.2014
VK CHOUHAN (SC)	DLJ	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
RAM PRASAD SAMANT (ST)	DLJ	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
Dr SC NEGI	DLJ	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
GS GEHLOT	DLJ	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
AS JODHA	DLJ	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
VASU DEV (SC)	DLJ	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
PAWAN KUMAR (SC)	DLJ	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
RAJEEV SANKHLA	DLJ	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
GHANSHYAM GURJAR	DLJ	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
SANTOSH KUMAR	DLJ	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
GAJENDRA PAL SINGH	DLJ	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
JAI NARAYAN (ST)	DLJ	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
UMAR FAROOQ	DLJ	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
G SHOBHAN RAO (SC)	DMRL	TO-C	TO-D	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 7600/-	01.09.2014
V KRISHNA MOHAN	DMRL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
K SRINIVAS RAO	DMRL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
CHSRK SARMA	DMRL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
K RAMASWAMY CHOUDARY	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
MOHAMMED AFZAL	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
HANMANTH (ST)	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
M SAILU (SC)	DMRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
T RAJA GOPAL RAO	DMRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
SVL RATNAM	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
AV PHANI KIRAN	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
RAHUL ASHOK RAMTEKE (SC)	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
KBN DURGA RAO	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
LALIT KUMAR SHAH	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SANDEEP KUMAR CHOUDHARY (SC)	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
DEEPAK KUMAR (OBC)	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
VIPIN SIDDHARTH RAMTEKE (SC)	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
S BHAGWAN PATHAK	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
PRAVEEN KUMAR (SC)	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	08.09.2014
A SATEESH KUMAR	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
G SHESHAGIRI RAO (OBC)	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
RANJINI K BALAN (OBC)	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
PRADIP KUMAR MOI (SC)	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
K GOPINADHA REDDY	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
NAKKA SAI VARDHAN (OBC)	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
T SREENIVAS (OBC)	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
J KIRAN	DMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
T SUDHAKAR	DMRL	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
BUCHAI AH (SC)	DMRL	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
G VENKATSWAMY	DMRL	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
ASHOK	DMRL	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
P SHANKAR (ST)	DMRL	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
A YADAGIRI	DMRL	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
HS ZAHOOR AHMED	DMRL	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
VS SRIVASTVA	DMSRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
SK SHAKYAWAR (SC)	DMSRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
HARJEET SINGH	DMSRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
AMAR KANT GHOSH	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
RAJENDRA MOHAN (SC)	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
SHAILENDRA TRIPATHI	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
AK MISRA	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
DEV ROOP ARYA	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
NAND KISHORE TIWARI	DMSRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
ANISH KUMAR BAJPAI	DMSRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
BHARAT LAL PATEL	DMSRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
DEV SINGH	DMSRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
BIRANJAN SATPATHY	DMSRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
RAVINDRA CHAUHAN (ST)	DMSRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SUMIT KUMAR	DMSRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
AJAI KUMAR	DMSRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
VISHAL ARORA	DTRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
K MONOHARASWAMY	GTR	TO-C	TO-D	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 7600/-	01.09.2014
GN NAGARAJA	GTR	TO-C	TO-D	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 7600/-	01.09.2014
ASHOK BHUSHAN	GTR	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
SYED PACHA	GTR	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
HR NATARAJA	GTRE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
GUNDAPPA	GTRE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
VK SHARMA	GTRE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
TC PRAKASH	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
GV LAKSHMI NARAYANA RAO	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
R ANURADHA	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
SHABANA TASNEEM	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
HA KRISHNA (ST)	GTRE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
P KANAKARAJ (SC)	GTRE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
L SHILPA	GTRE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SAJITH SUKUMARAN JANAKI	GTRE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
MEDHALAXMI ROHAN JOSHI	GTRE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
BD KUSUMA	GTRE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
K BIJEESH	GTRE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SUSANT KUMAR DHAL	GTRE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
JAYESH PANNERI	GTRE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
GV SATYANARAYANA	GTRE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
A P SHINOJ	GTRE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
REKHA KANNAMMANAVARA (ST)	GTRE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
S MANJUNATHA (ST)	GTRE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
A MURALI	GTRE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SH JAYANNA (ST)	GTRE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
T R SHIVARAMAN	GTRE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
K IRUDAYARAJ	GTRE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
C F DSILVA	GTRE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
M SELVAPANDIYAN	GTRE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
S SUNDARESAN (SC)	GTRE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SHANKAR NAIK (SC)	GTRE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
V SAMPATH KUMAR (SC)	GTRE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
M SURENDRAN (SC)	GTRE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
P GOPI	GTRE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
NAGESHACHARY	GTRE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SS JAGTAP	HEMRL	TO-C	TO-D	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 7600/-	01.09.2014
RR SHAH	HEMRL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
DS WANI	HEMRL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
VG SADAKALE (SC)	HEMRL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
RT KHADSE	HEMRL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
HP SONAWANE (SC)	HEMRL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
RB THOSAR	HEMRL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
BG PATIL	HEMRL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
IB GADE	HEMRL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
PK DIVEKAR	HEMRL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
DD GAIKWAD	HEMRL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
AA TAMBOLI	HEMRL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
CRG NAIDU	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
BS GADADE	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
RN GAIKWAD	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
KV RAUT	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
KUMAR ABHISHEK RAJ	HEMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
GT KACHI	HEMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
NAND KISHOR SINGH	HEMRL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SH WAGHMARE	HEMRL	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
AB SANGALE (ST)	HEMRL	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
AM JADHAV (SC)	HEMRL	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
VP DAVID	HEMRL	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
PA SALUNKE	HEMRL	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
AN SHINDE (ST)	MILIT	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014

BK MISHRA
Addl Director (Pers-TC)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 90, dated 8 April 2015—The President is pleased to promote the following officers from existing grade wef the date (F/N) as mentioned against each:-

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
NARAYAN SINGH (SC)	ADRDE	TO-C	TO-D	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 7600/-	01.09.2014
SANJEEV JAIN	ADRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
VINOD KUMAR (SC)	ADRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
LOKENDRA SINGH (ST)	ADRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
RAVI KUMAR (SC)	ADRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
PRAGATI AGARWAL	ADRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
MANISH KUMAR SINGH	ADRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
GLADWIN KUMAR (ST)	ADRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
LOTAN SINGH	ADRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
RAJVIR SINGH	ADRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
MD YUNUS	DEAL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
BABU RAM KALRA (SC)	DEAL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
VIKAS KARA (SC)	DEAL	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
MANGHE RAM (SC)	DEAL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
RS KAPIL (SC)	DEAL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
RC BHATNAGAR	DEAL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	15.09.2014
DAKHPAL SINGH (SC)	DEAL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
VIKAS	DEAL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
MAMCHAND SINGH (SC)	DEAL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
ASHOK RANA	DEAL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
NISHA TANEJA	DEAL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SATENDRA KUMAR (ST)	DEAL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
MOHD. AZAM	DEAL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
RAVINDER K PANT	DEAL	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
PRDEEP SAHDEV	DEAL	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
BALBIR SINGH	DEAL	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
S JENA	ITR	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
T SAIRAM PATRO	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
ASIT KUMAR DASH	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
BABU RAM DEY	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
SM SAHOO	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
SK KABI	ITR	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SB MORE	ACEM Nasik	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
C NARAYANA SWAMY	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
GOPALAKRISHNA	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
S UMESH (SC)	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
AR VENKATESH	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
DK DEVARAJA	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
AK KUBERAPPA (SC)	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
JEROME MARSHAL	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
N BALACHANDRAN	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
BN VIJAYAKUMAR	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
NAGARAJA	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
MM RAMAIAH (ST)	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
K RAMAKRISHNAPPA	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
S MURALI (ST)	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
NA BOREGOWDA	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
PV SHASHIDHARA	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
MD ARIFULLA	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
M SRIDHARAN (SC)	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
SAFEER AHMED	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
HS PARTHASARATHY	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
KS VENKATESH	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
S RAMAKRISHNACHARI	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
MN YEKKANTHAIAH	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
S VELAYUDAM	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
AM INAMDAR	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
M ARUMUGAM (SC)	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
G VISWANATHA	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
D NAGESHA	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
THIYAGARAJAN AS	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
MANJULA S	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
HS MANJUNATHA RAO	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
K ANBARASAN (SC)	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
P THANDAPANI (SC)	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
G BHARATHI	ADE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
ANJANAPPA (ST)	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
D ABEL	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
S RAVINDRA (SC)	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
PJ RYMON	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
S RAJASHEKARAN (SC)	ADE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
HN THULASI AMMAL	RIC	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
V ELUMALAI	RIC	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
GARU RAM (SC)	DIHAR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
TILAK RAJ (SC)	DIHAR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
RP BHALGAT	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
PB BALAWANTRAO (ST)	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
LS GARE (ST)	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
NK GARIA (SC)	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
PB DHAVALEKAR	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
DA WAVARE	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
KA PATIL	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
VS KAKTIKAR	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
MM PULGAM (ST)	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
MR TRIBHUVAN	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
SJ NIKAM	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
VS BHOSALE	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
AP LADKAT	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
DR GULHANE	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
HS KARKAR	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
SS LONKAR	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
YT AHIWALE (SC)	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
AD BHOSALE (SC)	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
CS JAGTAP (SC)	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
G JAYPRAKASH	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
BE MORE	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
LN BHOSALE	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
MS GODSE	R&DE(E)	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
RV SHILEDAR	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
SM BHAVE	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
DC KHADE (ST)	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
SN DUBE	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
BY MOTE	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
CLARA JACOB	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
SARITA P GUSAIN	R&DE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
V VARADARAJU	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
TS PRAKASH BHAT	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
K SYLVESTER	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
S BACKIARAJ	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
RSN MURTHY	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
BT JAGADISH	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
KP RAJEGOWDA	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
KK THILAXI	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
GR NAGAVENI	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
S GURUMURTHY	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
DS RAWAT	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
S SHARADA	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
D NAGARATHNA (ST)	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
S NAGARAJ	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
K SUBRAMANYA BHAT	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
N DINESHA	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
MMQ KERUR	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
A MAHALINGAM (SC)	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
PK ASHOKA	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
M SAMPATHKUMAR (SC)	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
A SHANKAR	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
Shri DP KRISHNAMURTHY RAO	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
SATHYA PREMAKUMARI C	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
RAJAGOPAL S	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
MONICA SHANTHI I	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
RAMAKRISHNA G	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
PREM CHANDRAN A	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
G SASHIKALA (SC)	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
PALANIVELU S	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
JESSY WILSON	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
JAGADEESHA	LRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
BS SUBBANNA	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
PREM KUMAR RAMPAL	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
L THOMAS	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
BR CHANDRAVATHI (SC)	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
V PANDURANGAN	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
G RAVIKUMAR	LRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
AK PANDA	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
SANJIVAN BODRA (ST)	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
LOKANATH NAIK (ST)	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
JYOTI EKKA (ST)	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2011
RANJAN KUMAR NAIK (ST)	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
GAYADHAR SETHI (SC)	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
KB DASBABU	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
PS SENAPATI	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
DAYANIDHI NAYAK (ST)	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
RK NAIK (ST)	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
JR NAYAK (ST)	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
PK MOHANTY	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
HEMANT KUMAR BAGE (ST)	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
MANASWINI DAS	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
AK PRADHAN (ST)	ITR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
GN DAS	ITR	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
REKHA BINDU (SC)	ISSA	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
NARENDRA SINGH (ST)	ISSA	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
L VENKATAIAH (SC)	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
P MANIKYAM	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
C SHANKARNATH	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
K VENKATA LAKSHMI	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
A RAJU	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
A NARSING RAO (SC)	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
G DEVAKI NANDAN	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
U MANMOHAN	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
D SHARANAPPA	DRDL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
T VENKATA SUBBA RAO	DRDL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
PNB PRATAP (SC)	DRDL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
K KRISHNA MURTHY	DRDL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
S GIRIJA DEVI	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
RAM SINGH (SC)	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
C BABU PRASAD	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
J SREENIVASA RAO (SC)	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
P BHOODAIAH (SC)	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
B SUKANYA DEVI	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
MAGANTI RAMANA KUMAR	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
P SUBBA RAO	DRDL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
K SUBBA RAO	DRDL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
S VINOD KUMAR	DRDL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
I LAKSHMINARAYANA	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
P PANDURANGASWAMY	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
S RAJASEKHAR (SC)	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
B BALANARASIMULU	DRDL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
M SHAJAHAN	DRDL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
M CHANDRASHEKHAR	DRDL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
K NARENDRA RAO (SC)	DRDL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
MD HUSSAIN	DRDL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
D MAHESWAR (SC)	DRDL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
BM DHOBALE (SC)	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
MD JALINDRE	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
SUHAS A BHATAMREKAR (SC)	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
EM JADHAV (SC)	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
KK SHINDE	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
SM KULKARNI	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
CM LONKAR	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
SS DESHPANDE	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
RR NIWAL	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
SP AVACHAT	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
SG SHINDE (ST)	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
TD SANGAMNERKAR	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
JJ BAGUL (ST)	ARDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
RV DHAVAL (ST)	ARDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
PREM SINGH MARLA (ST)	ARDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
MS KAMBLE (SC)	ARDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
AK SHAIKH	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
MK QURESHI	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	08.09.2012

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
MS FALKE (SC)	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
DV TANDALE	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
SV DESHPANDE	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
DD TEMKAR	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
AR GAWADE	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
VK PILLAY	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
SS KIRANGE	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
SS WANJALE	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
SS DESHPANDE	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
SL LOKHANDE	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
KD JOSHI	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
SR KHARATE (SC)	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
RR MENGANI	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
VN CHAVAN	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
BR JADHAV	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
AG GAIKWAD (SC)	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
PS POTDAR	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
NK NIROKHEKAR	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
KK SHARMA	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
MD HIRAVE	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
AJ TENGALE	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
RR NATH	ARDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
UG AMBHORE (SC)	ARDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
VB KULKARNI	ARDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
ROHITASHAW KUMAR SINGH	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
AJAI SINGH	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
CHANDRA SHEKHAR (SC)	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
AK SRIVASTAVA (II)	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
SK AGARWAL	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
POONAM AWASTHI	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
RAKESH KUMAR YADAV	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
US VISHWAKARMA	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
RAJ KUMAR (SC)	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
SHEEL PORWAL	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
RD VERMA (ST)	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
DEEPAK KUMAR YADAV	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
KULDEEP SINGH SEIYA (SC)	DMSRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
K LOKESHWAR REDDY	DLRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
N GANGA BAI (ST)	DLRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
A UMA DEVI	DLRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
P BHANUMATHI DEVI	DLRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
G KATTAIAH	DLRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
A VENUGOPAL	DLRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
B VEERAAIAH (ST)	DLRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
A PULLA REDDY	DLRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
N BALAJI	DLRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
P USHA KUMARI	DLRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
RV KRISHNA (SC)	DLRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
N SAMBASIVA RAO	DLRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
V ASHOK RAJU	DLRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
MV RAJESWARI (SC)	DLRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
GVV REDDY	DLRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
P VINOD KUMAR	DLRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
P SRINIVAS RAO	DLRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013

Name Shri/Smt/Miss/Ms	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
K PURUSHOTHAM DAS	DLRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
NAMA SATYANARAYANA (SC)	DLRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
N SUNDER	SPIC	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011

ADARSH KUMAR
Joint Director (Pers-TC)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015
www.dop.nic.in